

**Title:** Regarding alleged misuse of money which has been distributed by the Central Government for implementation of Central Government projects by the State Government of Bihar.

**श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत की सरकार विकास की कई योजनाएं चला रही है जिन्हें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने जब सुनिश्चित रोजगार योजना देश में चलाई तो अपनी मार्गदर्शिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि इन योजनाओं की कार्य योजना पंचायत समिति बनाएगी और उसके बाद जहां जिला परिषद् गठित है, वहां जिला परिषद् में इन योजनाओं पर विचार विमर्श होगा और प्रार्यांरिटी तय की जाएगी। उसी मार्गदर्शिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि डीआरडीए जो तकनीकी संस्थान है उसमें जाएगा और डीआरडीए की अध्यक्षता भी जिला परिषद् के निर्वाचित अध्यक्ष करेंगे। इसी प्रकार से प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की नई मार्गदर्शिका गई है, उसमें 10 पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें पॉइंट 5 में और 9 में उल्लेख है कि सबसे पहले ब्लॉक की पंचायत समिति में जाएगा और उसके बाद जिला परिषद् में इसका फाइनल डिस्सिजन होगा लेकिन हमारे बिहार में इन योजनाओं में पहले से लूट चल रही है। रघुवंश बाबू ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके पिछले वर्ष में चार बार इस संबंध में राज्य सरकार को भी आगाह किया। आज जब बिहार के अंदर 8400 पंचायतें, 519 पंचायत समितियां और 37 जिला परिषदों का गठन हो गया है और मार्गदर्शिका में साफ-साफ उल्लेख है कि कहां जिला परिषद् का गठन हो गया, पंचायत समिति का गठन हो गया, उसके माध्यम से इन योजनाओं का चयन होगा लेकिन बिहार में मार्गदर्शिका में जो निदेश हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। मान्य वर उपाध्यक्ष जी, अंत्योदय योजना की जो सूची बननी चाहिए वह भी बिहार में तैयार नहीं हुई है। मिड डे मील का जो अन्न है एवं अन्नपूर्णा योजना का जो अन्न है उसका भी उठाव बिहार सरकार नहीं कर पाई है। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि बिहार सरकार को मजबूर करे, बिहार की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है बिहार की योजनाओं में जो लूट मची हुई है, जो भारत सरकार की मार्गदर्शिका है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है उनका पालन हो। **â€¦( व्यवधान)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please cooperate with the Chair, there is a very long list of Members.

**श्री प्रमुनाथ सिंह :** प्रमोद जी इस बारे में कुछ बोलें। **â€¦( व्यवधान)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: I cannot compel the hon. Minister. I have called the name of Dr. Pandeya.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Radha Mohan Singh, you have already placed the issue before the House, I cannot compel the hon. Minister to respond. Now, please take your seat. I have called the name of Dr. Pandeya.

...(Interruptions)

**श्री प्रमुनाथ सिंह :** राज्य सरकार केन्द्र सरकार के निर्देश को भी नहीं मान रही है। इसलिए सवाल उठाया जाता है कि केन्द्र इस मामले की सूचना ग्रहण करे और आवश्यक कार्रवाई करे ताकि केन्द्र के निर्देशों को माना जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, please cooperate with me, I have called Dr. Pandeya to speak.

...(Interruptions)

**कुंवर अखिलेश सिंह :** निर्देश यहां से जारी होते हैं लेकिन उनका वहां पालन नहीं होता है। **â€¦( व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपका नाम इसमें नहीं है। आप बैठ जाइए।

**कुंवर अखिलेश सिंह :** यह हमारे राज्य का सवाल है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** सवाल होगा मगर मैं मंत्री जी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) :** मुझे किसी एक राज्य विशेष के बारे में नहीं कहना है लेकिन जो केन्द्र की योजनाएं हैं वह सारे राज्यों में लागू हो यह सबकी इच्छा होगी और मैं समझता हूं कि केन्द्र इसको लगातार मॉनीटर करता है।

